



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

13 पौष 1935 (श0)  
(सं0 पटना 36) पटना, शुक्रवार, 3 जनवरी 2014

---

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

-----  
अधिसूचना

17 दिसम्बर, 2013

सं0 नि० प्रा०/ नि० 1-03/ 2011 खंड-II-**1281**—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न **परिशिष्ट-1** में अंकित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-2** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट-1 में अंकित सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 29.01.2014 (बुधवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-1201 दिनांक 19.11.2013 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.10.2013 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 10.12.2013 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा किया जा चुका है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न मानक **प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-3)** में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 30.12.2013 (सोमवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को संलग्न **प्रपत्र-2** में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा निर्वाचन की तिथि को संलग्न **प्रपत्र-3** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,  
फूल सिंह,  
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

**परिशिष्ट-1**

**समितियों की विवरणी जिनके निर्वाचन देय हैं :-**

क्र०	जिला	प्रखंड का नाम	प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम
1	2	3	4
1	सारण	रिविलगंज	हमिदा महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड, सिताब दियारा, रिविलगंज
2	समस्तीपुर	मोहिदीनगर	सहकारी उपभोक्ता भंडार कल्याणपुर, बस्ती
3	पटना	पटना सदर	बिहार राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि०, पटना
4	पटना	पटना सदर	विशेष शाखा पुलिस मेंस क्रेडिट को. सो. लि०, पटना
5	पटना	पटना सदर	शहीद चन्द्रशेखर नगर सहकारी गृह निर्माण स. लि०, पटना
6	पटना	पटना सदर	राजधानी सहकारी गृह निर्माण स. लि०, पटना
7	पटना	पटना सदर	पृथ्वीराज पथ सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, पटना
8	पटना	पटना सदर	न्यु सोनभद्र सहकारी गृह निर्माण स. लि०, पटना
9	पटना	पटना सदर	अखिल आर्य बिहार सहकारी गृह निर्माण स० लि०
10	पटना	पटना सदर	एस० बी० स्टाफ क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को० सो० लि०, पटना
11	पटना	पटना सदर	राम जानकी सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, पटना
12	पटना	पटना सदर	पाटलीपुत्र जनता सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, पटना
13	पटना	पटना सदर	विश्वेश्वरैयापुरी सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, पटना
14	पटना	पटना सदर	विद्युत नगर सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, पटना
15	भागलपुर	जगदीशपुर	हुसैनाबाद सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०
16	भागलपुर	खरीक	मीरजाफरी करघा उद्योग प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि०
17	मुंगेर	ह० खड़गपुर	हवेली खड़गपुर नगर परिषद् पंचायत पैक्स, मुंगेर
18	मुजफ्फरपुर	मुसहरी	द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इम्प्लायज क्रेडिट सोसायटी लि०, मुजफ्फरपुर
19	मुजफ्फरपुर	मुसहरी	रामदयालु नगर पूर्वोत्तर रेलवे कैटरिंग एंड भेंडिंग स०स० लि०

**परिशिष्ट-2**

**परिशिष्ट-1 में उल्लिखित समितियों के  
प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम**

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	30.12.2013 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	18.01.2014 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	20.01.2014 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से लगातार
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	21.01.2014 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	29.01.2014 (बुधवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	29.01.2014 (बुधवार) (अपराह्न 3-4 बजे से)

### परिशिष्ट-3

.....समिति, .....

#### प्रपत्र-1

#### सूचना का प्रपत्र

(प्रबंधकारिणी समिति के पदधारकों के निर्वाचन के लिए)

..... समिति, निबंधन संख्या ....., पता .....  
 .....के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक .....को किया जाना है।  
 मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-  
 (निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

#### आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या ..... है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
उपविधि में वर्णित तथा प्राधिकार की अधिसूचना में सन्निहित निदेशों के अनुसार उल्लेख करें।	

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर  
 (स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता  
 (उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक ..... बजे पूर्वाह्न से ..... बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।  
 (नामांकन पत्र दाखिल की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....  
 तक .....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर ..... बजे पूर्वाह्न से ..... बजे  
 (स्थान का नाम)

अपराह्न तक की जायेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न 3 बजे के पूर्व तक .....पर  
 (स्थान का नाम)

दाखिल की जा सकती है। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद विधिमाम्य रूप से नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र ..... (पूरा पता) में अवस्थित होगा।

(viii) मतगणना दिनांक.....को .....बजे से.....पर की जायेगी।

(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

## प्रपत्र-2

बिहार सहकारी/स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची

जिला : ..... प्रखंड : .....  
 केन्द्रीय/शीर्ष समिति का नाम, जिससे समिति संबद्ध है : ..... समिति का कार्य विवरण : .....  
 अंतिम प्रकाशित सूची के अनुसार मतदाताओं की संवीक्षा की तिथि : / YYYY  
 कुल संख्या : .....  
 समिति का नाम : .....

क्रमांक	अध्यक्ष पद	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति

क्रमांक	मंत्री/ उपाध्यक्ष/ सचिव	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति



कुल पदों की संख्या (अध्यक्ष/ मंत्री/उपाध्यक्ष/ सचिव को छोड़कर)					
कुल (पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या)					
कुल (महिला अभ्यर्थियों की संख्या)					
कुल अभ्यर्थियों की संख्या					

निर्वाचन पदाधिकारी  
का हस्ताक्षर।

### प्रपत्र-3

बिहार सहकारी/स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्विरोध/सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूची

जिला : ..... प्रखंड : .....  
 कुल मतदाताओं की ..... मतदान करने  
 संख्या : ..... वाले मतदाताओं  
 की संख्या : .....  
 निर्वाचन की तिथि : DD/ MM/ YYYY  
 समिति का नाम : .....

पद	नाम	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति
अध्यक्ष				
मंत्री/ उपाध्यक्ष/ सचिव				

\*अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

बोर्ड/प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्यों का नाम				अभ्युक्ति
अनु० जाति/ अनु० जनजाति कोटि	पिछड़ा वर्ग कोटि	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि	सामान्य कोटि	

कुल पदों की संख्या (अध्यक्ष/ मंत्री/उपाध्यक्ष/ सचिव को छोड़कर)				
कुल (निर्वाचित पुरुष सदस्यों की संख्या)				
कुल (निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या)				
कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या				

निर्वाचन पदाधिकारी का  
हस्ताक्षर।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 36-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>